

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन अधिक स्थिर नेबरहुड बना रहा है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (17 फरवरी, 2021) – आज, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने, ब्रैमली (Bramalea) के K, E और F सेक्शनों के लिए ब्रैमली सस्टेनेबल नेबरहुड एक्शन प्लान (एस.एन.ए.पी.) (Sustainable Neighbourhood Action Plan) (SNAP) को मंजूरी दी।

ब्रैमली SNAP, K, E और F सेक्शनों के लिए कई प्रकार की कार्रवाईयों की सिफारिश करता है, जिनका उद्देश्य, ईको स्पेसिज और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का जुड़ा हुआ सिस्टम, सुरक्षित और क्रियाशील ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, समुदाय के साथ स्वस्थ लोकल फूड सिस्टम कम्युनिटी और प्राइवेट गार्डन, घर और बिल्डिंग क्षमता, व्यवसायिक और संस्थागत प्रॉपर्टीज को हरा-भरा बनाने संबंधी पहलकदमियों और सामुदायिक लचीलापन पैदा करना है।

SNAP, सिटी के मिटी टो क्म्युनिटी एनर्जी एंड एमिशनस रिडक्शन प्लान (सी.ई.ई.आर.पी.) को आगे बढ़ाते हैं। सी.ई.ई.आर.पी. (CEERP) एक ऐसा रोडमैप तैयार करता है, जो ऊर्जा क्षमता में सुधार करेगा, ग्रीनहाउस गैस निकासियों को कम करेगा, आर्थिक लाभ पैदा करेगा, ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा और जलवायु में बदलाव संबंधी, ब्रैम्पटन के लचीलेपन को बढ़ाएगा।

पूरी एक्शन प्लान (Action Plan) रिपोर्ट [यहां \(here\)](#) उपलब्ध है।

पृष्ठभूमि

सस्टेनेबल नेबरहुड एक्शन, स्थिर शहर नवीकरण और जलवायु संबंधी कार्रवाई के लिए, एक नवीन और सहयोगी मॉडल है, जो नेबरहुड स्केल पर ध्यान केंद्रित करता है। चुने हुए नेबरहुड के लिए अनुकूलित एक्शन प्लान द्वारा निर्देशित, यह प्रोग्राम समुदाय की जरूरतों के साथ म्युनिसिपल स्थिरता संबंधी प्राथमिकताओं के मुताबिक है, यह एकीकृत पुनर्निर्माण संबंधी समाधानों की पहचान करता है और पब्लिक एजेंसियों, सामुदायिक संगठनों, कारोबारों व निवासियों के बीच साझेदारियों को विकसित करता है। इसके परिणामस्वरूप, SNAP प्रोग्राम क्षमताएं प्रदान करने, निवासियों के सशक्तिकरण और नवीन तरीके दर्शाने में मदद करते हैं।

शुरु में इसे, टोरोंटो एंड रीजन कन्जर्वेशन अथॉरिटी (टी.आर.सी.ए.) (Toronto and Region Conservation Authority) (TRCA) द्वारा विकसित किया गया था। अब पूरे ओनटैरियो में एक दर्जन से अधिक SNAP हैं, जिनमें से तीन, अब ब्रैम्पटन में स्थित हैं – ब्रैमली SNAP (Bramalea SNAP), काउंटी कोर्ट SNAP (County Court SNAP) और फ्लेचर्स क्रीक SNAP (Fletchers Creek SNAP)।

लिंक

- [सस्टेनेबल नेबरहुड एक्शन प्लान \(एस.एन.ए.पी.\) \(Sustainable Neighbourhood Action Plans \(SNAPs\)\)](#)
- [ब्रैमली SNAP \(Bramalea SNAP\)](#)
- [काउंटी कोर्ट SNAP \(County Court SNAP\)](#)
- [फ्लेचर्स क्रीक SNAP \(Fletcher's Creek SNAP\)](#)

- [कम्युनिटी एनर्जी एंड एमिशनस रिडक्शन प्लान \(सी.ई.ई.आर.पी.\) \(Community Energy and Emissions Reduction Plan\) \(CEERP\)](#)

हवाले

“ब्रैम्पटन एक ग्रीन सिटी है, जो जलवायु संबंधी बदलाव पर असली प्रभाव डालने के लिए अधिक स्थिर नेबरहुड बना रहा है और अपने निवासियों के लिए, अधिक ग्रीन जीवनशैली को प्रोत्साहित कर रहा है। हम, ब्रैमली SNAP के द्वारा, ब्रैमली के K, E और F सेक्शनों में स्थिर बदलाव पैदा करने के लिए, टोरोंटो एंड रीजन कन्जरवेशन अथॉरिटी, रीजन ऑफ पील और हेल्थी कम्युनिटीज इन्शिएटिव पर हमारे साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।”

- *पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“ब्रैमली SNAP, ग्लोबल जलवायु संबंधी बदलाव में हमारे योगदानों को कम करने और बेहतर भविष्य बनाने के लिए, हमारे कम्युनिटी एनर्जी एंड एमिशनस रिडक्शन प्लान को आगे बढ़ाता है। हम, ब्रैम्पटन में पैदा होने वाली ग्रीनहाउस गैस निकासियों को, 2050 तक 80 प्रतिशत तक कम करने के सफर पर हैं।”

- *पॉल विसेंट (Paul Vicente), चेयर, पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग; रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“ब्रैमली SNAP, वार्डों 7 और 8 के लिए स्थिरता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एक्शन प्लान, समुदाय की जरूरतों पर विचार करने के लिए, हमारे समुदाय और स्टेकहोल्डर्स ने मिलकर तैयार किया था। इस प्लान के प्रत्येक उपाय में, सामुदायिक भागीदारी एक प्राथमिकता है।”

- *शार्मेन विलियम्स (Charmaine Williams), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“1960 के दशक में कॅनेडा के पहले योजनाबद्ध सैटेलाइट शहर के तौर पर, ब्रैम्पटन में ब्रैमली का एक बेजोड़ इतिहास और पहचान है। यह सुधार, ब्रैम्पटन के निवासियों को सेवा देने के लिए और K, E और F सेक्शनों को सभी के लिए अधिक स्वस्थ और अधिक स्थिर बनाने के लिए तैयार किए गए हैं।”

- *पैट फोर्टिनी (Pat Fortini), वाइस-चेयर, पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग; रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“सिटी का स्टाफ, ब्रैमली SNAP के द्वारा स्थिर बदलाव पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे साझेदारों, सामुदायिक मेम्बर्स और स्टेकहोल्डर्स का धन्यवाद, जिन्होंने ब्रैम्पटन का तीसरा SNAP बनाने में अपनी भूमिका निभाई। हम इसके लागू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।”

- *डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

कॅनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे



Media Release

बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca